



19 जून 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- केंद्र ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ओएमएसएस के तहत राज्य सरकारों को चावल, गेहूं की बिक्री बंद कर दी।
- भारत का पॉम तेल आयात इस साल मई के दौरान 14.59 प्रतिशत घटकर 4,39,173 टन रह गया, लेकिन कच्चे सूरजमुखी तेल के निर्यात में तेज वृद्धि हुई।
- सरकार ने 15 वर्षों में पहली बार गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की।
- अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन लगातार दो महीने में बढ़ोतरी के बाद मई में 0.2% कम हो गया।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चीन का एल्युमीनियम उत्पादन एक साल पहले की तुलना में मई में 1.1% बढ़कर 3.42 मिलियन टन हो गया।
- रूसी एल्युमीनियम उत्पादक यूनाइटेड कंपनी रूसल इंटरनेशनल कच्चे माल के आयात को कम करने में मदद करने के लिए 400 बिलियन रूबल (4.8 बिलियन डॉलर) के निवेश के साथ एक एलुमिना उत्पादन सुविधा बनाने की योजना बना रही है।
- बैंकों ने उधारकर्ताओं के लिए सोने पर मौजूदा ऋणों की तर्ज पर चांदी पर भी ऋणों के लिए एक नीतिगत ढांचे की मांग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह किया है।
- मई में भारत का व्यापार घाटा 22 अरब डॉलर के साथ 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि निर्यात 10% घटकर 35 अरब डॉलर रह गया है।
- सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मई में भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 25 महीने के निचले स्तर 4.25% पर आ गई, क्योंकि खाद्य कीमतों में वृद्धि कम हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के करीब आ रही है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	09.06.23	15.06.23	बदलाव (%)
हल्दी	7626.00	8540.00	11.99%
जीरा	46610.00	49255.00	5.67%
धनिया	5944.00	6196.00	4.24%
कैस्टरसीड	5586.00	5729.00	2.56%
स्त्रील	46890.00	48000.00	2.37%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	09.06.23	15.06.23	बदलाव (%)
ग्वारगम	10266.00	9899.00	-3.57%
जौ	1961.00	1904.00	-2.91%
ग्वारसीड	5236.00	5119.00	-2.23%
धान	4259.00	4180.00	-1.85%
कपास	1509.50	1488.50	-1.39%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	09.06.23	15.06.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	194.90	215.60	10.62%
मेंथा ऑयल	918.40	947.60	3.18%
निकल	1820.00	1871.10	2.81%
तांबा	725.65	737.45	1.63%
लेड	183.75	185.30	0.84%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	09.06.23	15.06.23	बदलाव (%)
सोना एम	59881.00	59395.00	-0.81%
सोना पेटल	6000.00	5954.00	-0.77%
सोना	60106.00	59663.00	-0.74%
सोना गिनी	48224.00	47965.00	-0.54%
कच्चा तेल	5866.00	5835.00	-0.53%

साप्ताहिक समीक्षा

सीआरबी इंडेक्स में निचले स्तर से मजबूत रिकवरी दर्ज की गई क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय बैंकों की बैठक और बहुत सारे आंकड़ों के कारण कारोबारी बाजार से दूर रहे। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों को 22 साल के उच्च स्तर तक बढ़ा दिया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस सप्ताह साल के अंत तक कम से कम आधा प्रतिशत अंक बढ़ने का संकेत दिया। उच्च ब्याज दरें अंततः उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत में वृद्धि करती हैं, जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकती हैं और तेल की मांग को कम कर सकती हैं। दो हफ्ते की तेजी के बाद सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट हुई जबकि इस सप्ताह सोने की कीमतों में बढ़ा उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। सोने की कीमतें काफी हद तक पिछले महीने काफी कम दायरे में कारोबार करती रही, क्योंकि फेड और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मिले-जुले संकेतों ने किसी भी दिशा में ब्रेकआउट के लिए बहुत कम संकेत दिए। ऊर्जा काउंटर में, नेचुरल गैस की कीमतों को बहुत जरूरी सपोर्ट मिला जबकि कच्चे तेल की कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी हो गई। सप्ताह की शुरुआत में कमजोर आंकड़ों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई, लेकिन बाद में गुरुवार को चीन की तेल रिफाइनरी से उत्पादन मई में एक साल पहले की तुलना में 15.4% बढ़ने, जो रिकॉर्ड दूसरा उच्चतम स्तर है, के बेहतर आंकड़ों के कारण कीमतों में रिकवरी हुई। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान चीन की ओर से तेल की मांग के निश्चित दर से बढ़ने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मई में खुदरा बिक्री अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, साथ ही बेरोजगार दावों में भी पिछले सप्ताह अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी हुई। बेस मेटल में, तांबे में लगातार तीसरे सप्ताह की तेजी देखी गई। जिंक और लेड की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी रही जबकि एल्युमीनियम की कीमतें तेजी के रूझान के साथ एक दायरे में बंद हुईं। यह बढ़त चीन द्वारा ब्याज दर में कटौती के कारण हुई। लेकिन, मई में चीन के औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में वृद्धि के पूर्वानुमान के कारण कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण बाजार के सेंटिमेंट पर हावी हो गया। चीन ने इस सप्ताह मध्यम और अल्पकालिक उधार दरों में कटौती की, और अगले सप्ताह अपनी प्रमुख ऋण प्रधान दर में कटौती की उम्मीद है, क्योंकि बीजिंग कोविड के बाद धीमी आर्थिक सुधार को गति प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

कृषि कमोडिटीज में, आपूर्ति घटने और मांग में सुधार के कारण कैस्टर सीड की कीमतों को 5400 के पास सपोर्ट मिला और तीन सप्ताह की अवधि में 5865 के करीब बंद हुआ। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी हुई लेकिन 2600 के रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। कपास में नए सिरे से खरीददारी के कारण कीमतों में उत्तर की ओर बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। ग्वार की कीमतों में गिरावट पर विराम लग गया। मसालों की कीमतों में मिलाजुले रुख के साथ कारोबार हुआ। जीरे की कीमतों में मामूली गिरावट हुई है। हल्दी के बाजार में प्रीमियम गुणवत्ता की हल्दी की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में जोरदार उछाल के साथ पोर्टफोलियो की चमक बढ़ गई। भारत ने अप्रैल-23 में लगभग 19.6 हजार टन हल्दी का निर्यात किया है जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 13.76 हजार टन निर्यात किया था। धनिया की कीमतें एक दायरे में रही। मेंथा की कीमतें 900 के स्तर को पार कर गई है और निचले स्तर से उबर रही है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	09.06.2023	15.06.2023	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	1,978.50	1,954.60	-1.21%
चना	दिल्ली	5,116.85	5,099.95	-0.33%
धनिया	कोटा	6,199.50	6,199.95	0.01%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	806.20	818.10	1.48%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,440.35	1,444.95	0.32%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,392.25	5,225.40	-3.09%
ग्वारगम	जोधपुर	10,626.55	10,106.20	-4.90%
जीरा	ऊझा	48,323.30	49,306.20	2.03%
सरसों	जयपुर	5,104.95	5,199.30	1.85%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	902.50	925.00	2.49%
सोयाबीन	इंदौर	5,206.00	5,235.00	0.56%
हल्दी	निजामाबाद	7,469.20	7,761.45	3.91%
गेहूं	दिल्ली	2,480.00	2,408.25	-2.89%
कॉटन	कड़ी	27,966.80	27,608.25	-1.28%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,656.70	2,674.60	0.67%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	09.06.2023	15.06.2023	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2268.00	2249.50	-0.82%
तांबा	LME	नकद	8371.50	8558.00	2.23%
लेड	LME	नकद	2056.00	2130.50	3.62%
निकल	LME	नकद	21170.00	22993.00	8.61%
जिंक	LME	नकद	2404.50	2480.50	3.16%
सोना	COMEX	जुलाई	1968.40	1961.80	-0.34%
चांदी	COMEX	जुलाई	24.41	23.95	-1.90%
लाइट क्रूड	NYMEX	जुलाई	70.17	70.62	0.64%
नेचुरल गैस	NYMEX	अगस्त	2.33	2.61	11.93%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	09.06.2023	15.06.2023	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	13.86	14.28	3.03%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	54.59	58.43	7.03%
कॉटन	ICE	जुलाई	84.04	80.64	-4.05%
सीपीओ	BMD	अगस्त	3,367.00	3,521.00	4.57%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	09.06.2023 क्वांटिटी	15.06.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	10405	8726	-1679
चना	मी.टन	11991	13083	1092
धनिया	मी.टन	22545	17914	-4631
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	16833	16703	-130
ग्वारगम	मी.टन	20836	20948	112
ग्वारसीड	मी.टन	165	198	33
जीरा	मी.टन	7715	8192	477
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉग	मी.टन	632	632	0
हल्दी	मी.टन	1165	1164	-1

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	09.06.2023 क्वांटिटी	15.06.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	137	167	30
तांबा	मी.टन	1791767	1705059	-86708
सोना	किग्रा	368	368	0
सोना मिनी	किग्रा	2840	2840	0
सोना गिनी	किग्रा	221300	221300	0
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	160583	159459	-1124
चांदी एम	किग्रा	40567	40567	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 09.06.2023	स्टॉक की स्थिति 15.06.2023	अंतर
एल्युमीनियम	577975	569075	-8900.00
तांबा	95400	79525	-15875.00
निकल	37746	37110	-636.00
लेड	37150	38400	1250.00
जिंक	85500	82725	-2775.00



ट्रेड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेड बदलाव की तिथि	ट्रेड	भाव के ट्रेड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जुलाई	49265.00	14.03.23	तेजी	32000.00	46800.00	-	46600.00
NCDEX	हल्दी	अगस्त	8658.00	06.04.23	तेजी	7035.00	7920.00	-	7900.00
NCDEX	ग्वारसीड	जुलाई	5125.00	29.03.23	मंदी	5650.00	-	5570.00	5600.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जुलाई	5814.00	15.06.23	तेजी	5750.00	5650.00	-	5600.00
NCDEX	स्टील लांग	जून	46930.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	49100.00	49150.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जुलाई	2572.00	11.04.23	मंदी	2800.00	-	2680.00	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	जून	931.90	14.03.23	मंदी	1015.00	-	945.00	950.00
MCX	बुलडेक्स	जून	16022.00	11.05.23	मंदी	16600.00	-	16370.00	16400.00
MCX	चांदी	जुलाई	72126.00	11.05.23	मंदी	75000.00	-	74330.00	74400.00
MCX	सोना	अगस्त	59355.00	11.05.23	मंदी	61200.00	-	60400.00	60450.00
MCX	तांबा	जून	735.25	08.06.23	तेजी	720.00	-	711.00	710.00
MCX	लेड	जून	184.65	08.06.23	साइडवेज	182.00	177.00	190.00	-
MCX	जिंक	जून	222.20	08.06.23	तेजी	213.00	211.00	-	210.00
MCX	एल्युमिनियम	जून	204.55	01.06.23	साइडवेज	209.00	201.00	216.00	-
MCX	कच्चा तेल	जुलाई	5835.00	19.04.23	मंदी	6500.00	-	6250.00	6300.00
MCX	नेचुरल गैस	जून	209.30	15.06.23	तेजी	200.00	183.00	-	180.00

*15/06/2023 का बंद भाव

नाट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक क्मोडिटी हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना को ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

नेचुरल गैस (जून) एमसीएक्स



नेचुरल गैस (जून) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 233.80

निचला स्तर: 177.30

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (जून) कॉन्ट्रैक्ट 15 जून 2023 को 209.30 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 203.45 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 71.65 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

198.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 245.00 रू के टारगेट के लिए 212.00 रू के ऊपर खरीददारी की जा सकती है।

कैस्टरसीड (जुलाई) एनसीडीईएक्स



कैस्टरसीड (जुलाई) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6147.00

निचला स्तर: 5462.00

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड (जुलाई) कॉन्ट्रैक्ट 15 जून 2023 को 5814.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5977.88 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 72.322 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5630.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 6000.00 रू के टारगेट के लिए 5750.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

जिंक (जून) एमसीएक्स



जिंक (जून) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 248.85

निचला स्तर: 204.15

एमसीएक्स में जिंक (जून) कॉन्ट्रैक्ट 15 जून 2023 को 222.20 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 229.51 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 70.289 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

212.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 236.00 रू के टारगेट के लिए 220.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

बाजार में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बाद हल्दी की कीमतें साप्ताहिक आधार पर 9% से अधिक चढ़ गईं। मिलें उपज की उचित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं क्योंकि आवक के प्रमुख हिस्से की गुणवत्ता बेहतर नहीं है। बारिश से फसल कटाई का काम काफी हद तक प्रभावित हुआ है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में लंबे समय तक बेमौसम बारिश के कारण फसल की गुणवत्ता में गिरावट आई है। बाजार में 60% से अधिक आवक को चुकी है और आने वाले हफ्तों में आपूर्ति की गति धीमी होने की संभावना है। पिछले वर्ष के 150 हजार टन की तुलना में 1 अप्रैल 23 से अब तक लगभग 146.8 हजार टन हल्दी भारत भर के बाजारों में आ चुकी है। आवक में कमी और अप्रैल-23 में निर्यात में वृद्धि की रिपोर्ट के कारण निकट अवधि में कीमतों में तेजी बरकरार रहेगी। भारत ने अप्रैल-23 में लगभग 19.6 हजार टन हल्दी का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 13.76 हजार टन निर्यात हुआ था। हल्दी वायदा (अगस्त) की कीमतों के साथ 9300 रु तक बढ़ने की संभावना है।

बाजार में आपूर्ति की कमी के कारण जीरा (जुलाई) वायदा की कीमतों में तेजी बनी रहेगी। बाजार में प्रीमियम गुणवत्ता वाले उत्पाद की सीमित उपलब्धता से कीमतों को स्थिर रहने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना में आवक की गति लगभग समान है। पिछले वर्ष के 65.5 हजार टन की तुलना में 1 अप्रैल से अब तक वर्ष 2023 में लगभग 65.9 हजार टन की आवक हो चुकी है। मजबूत निर्यात मांग और मिलों के पास कम स्टॉक के कारण वे हर गिरावट पर जीरा खरीदने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भारत ने पिछले वर्ष के 9.94 हजार टन के मुकाबले अप्रैल-23 में लगभग 16.28 हजार टन जीरा का निर्यात किया। हाज़िर बाजार में खरीदारी में सुधार को देखते हुए जीरा की कीमतों में 46000 के सपोर्ट के साथ 51000 रु तक बढ़ने की संभावना है।

मौजूदा स्तरों पर खरीदारी में बढ़ोतरी के कारण धनिया वायदा (जुलाई) की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। बढ़ते निर्यात की खबरों ने बाजार के सेंटीमेंट को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। पिछले वर्ष के 3.16 हजार टन की तुलना में अप्रैल-23 में लगभग 10.68 हजार टन धनिया का निर्यात किया गया है। हाज़िर बाजार में भारी आपूर्ति के कारण धनिया की कीमतों में बहुत सीमित दिख रही है। वर्ष 2023 में 1 अप्रैल 23 से अब तक लगभग 236 हजार टन धनिया की आवक हो चुकी है जबकि पिछले वर्ष 94 हजार टन धनिया की आवक हुई थी। धनिया की कीमतें 5800-6600 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

अन्य कमोडिटीज

बाजार में आपूर्ति कम होने से कपास की कीमतों में मिलाजुला कारोबार की संभावना है। एमएसपी में बढ़ोतरी से बाजार के सेंटीमेंट पर भी असर पड़ेगा। सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए कपास की एमएसपी को 6080 रुपये/क्विंटल से बढ़ाकर 6620 रुपये/क्विंटल कर दिया। लेकिन, आगामी सीजन के लिए बेहतर उत्पादन की संभावनाओं के कारण बहुत सीमित रहने की संभावना है। गुजरात में कपास की बुवाई बेहतर ढंग से चल रही है। 12 जून तक गुजरात में कपास के तहत लगभग 1.73 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 1.33 लाख हेक्टेयर की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 31% अधिक है। कपास पर बेहतर मुनाफा मिलने से मूंगफली का रकबा कपास की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एमसीएक्स पर कॉटन (जुलाई) की कीमतें 55500-62300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1460-1530 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में सीमित उपलब्धता के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (जुलाई) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। भारत के उत्तरी हिस्से में सामान्य से अधिक तापमान के कारण फोडमिल की बढ़ी हुई मांग से कीमतों की तेजी को समर्थन मिलने की संभावना है। इसके अलावा, कम आवक के कारण कॉटनसीडऑयलकेक के समग्र उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतें 2550-2850 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन की संभावना के कारण ग्वारसीड (जुलाई) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। मानसून की बारिश की धीमी प्रगति और ग्वारमिल की बढ़ती मांग के कारण ग्वार के बाजार का सेंटीमेंट मजबूत रहने की संभावना है। ग्वारगम की निर्यात मांग में भी सुधार हुआ है जिससे कीमतों में मजबूती आएगी। मुख्य रूप से मॉनसून की प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा और आगे का रूझान तय करने के लिए बुवाई की प्रगति पर नजर रहेगी। ग्वारसीड की कीमतें निकट भविष्य में 5200-5600/5800 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि ग्वारगम की कीमतें 9500-11000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

स्थानीय बाजार में उभरती खरीदारी के साथ मेंथा ऑयल वायदा (जून) की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। मांग की चिंता के कारण कीमतें कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई हैं। भारत ने अप्रैल-23 के दौरान लगभग 708 टन मेन्थॉल का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 877 हजार टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 19% की कमी है। लेकिन कीमतों में हालिया गिरावट के कारण खरीदारी की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे कीमतों में तेजी आएगी। मेंथा तेल की कीमतें 910-955 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सीमित उपलब्धता के मुकाबले खरीदारी बढ़ने के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। लेकिन अरंडी के तेल के अधिक उत्पादन और सीमित निर्यात मांग के कारण बहुत सीमित रह सकती है। वर्ष 2023 में कुल उत्पादन 18.82 लाख टन होने का अनुमान है जो साल-दर-साल 16% अधिक है। अरंडी (जुलाई) वायदा की कीमतों के 5600-6200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

सर्पफा

सोने की कीमतों में साप्ताहिक स्तर पर मामूली गिरावट हुई क्योंकि कारोबारियों ने हाल के अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी दिनों में मौद्रिक सख्ती पर आक्रामक रुख का आंकलन किया। कीमती धातु शुरू में तीन महीने के निचले स्तर तक गिर गई थी, लेकिन उत्साहजनक अमेरिकी आर्थिक संकेतकों के जारी होने के बाद कीमतों में उछाल दर्ज की गई और उच्च स्तर पर पहुंचने में कामयाब रही, जिसने ब्याज दर में बढ़ोतरी पर फेड के आक्रामक ठहराव से अस्थायी राहत प्रदान की। लेकिन मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व के लगातार आक्रामक रुख के कारण सोने की तेजी को चुनौती मिली हुई है। आगामी दिनों में अतिरिक्त ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए, निवेशकों के लिए सोना खरीदने को लेकर प्रोत्साहन कम हो गया है। फेड के इस संकेत के बाद कि वर्ष के अंत तक उधारी लागत में आधे प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है, और कारोबारी वर्तमान में जुलाई में दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की 72% संभावना जता रहे हैं। डॉलर इंडेक्स के एक महीने के निचले स्तर पर बने रहने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट कुछ हद तक सीमित हो गई है। इसके बावजूद, सोने की कीमतों का तेजी के लिए संघर्ष जारी है क्योंकि बाजार भविष्य में संभावित दरों में बढ़ोतरी की संभावना को नजरान्दाज कर रहा है। निवेशक आगामी आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर बयानों पर बारीकी से निगरानी करेंगे, जो आने वाले हफ्तों में सोने के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 1930-1980 डॉलर के व्यापक दायरे में कारोबार कर रही हैं, और इस दायरे में बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर, चांदी की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार हो रहा है और कीमतें 22,200-24,800 डॉलर के दायरे में हैं। इस सप्ताह सोने की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं जहां दोनों तरफ की हलचल देखी जा सकती है और कीमतें 57800-60800 के दायरे में रह सकती हैं। चांदी की कीमतें 69700-73500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

चीन में तेल मांग में सकारात्मक बढ़ोतरी और संयुक्त राज्य अमेरिका से खुदरा बिक्री के आश्चर्यजनक आंकड़ों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। मई में चीनी रिफाइनरी का उत्पादन 15.4% बढ़ गया, जो कुल मिलाकर निराशाजनक चीनी आंकड़ों के बावजूद तेल की मजबूत मांग की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त, चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी ने प्रोत्साहन उपायों को लेकर उम्मीदों और आर्थिक सुधार में तेजी लाने के प्रयास का संकेत दिया। इसके विपरीत, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने दरें बढ़ाई, जो उधार लेने की संभावित उच्च लागत और तेल की मांग में वृद्धि को बाधित कर सकता है। यद्यपि यूरोप प्रमुख तेल उपभोक्ता नहीं है, लेकिन इसके पर्याप्त खपत स्तरों के कारण मांग में किसी भी बदलाव का तेल की कीमतों पर वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, आर्थिक संकेतकों और केंद्रीय बैंक के कार्यों के आधार पर भविष्य की मांग की उम्मीदों से बाजार की धारणा प्रभावित होती है। कुल मिलाकर, चीन में तेल की मांग से सकारात्मक खबर और अमेरिकी खुदरा बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन, ब्याज दरों और आर्थिक संकेतकों में चल रहे विकास बाजार के सेंटीमेंट को आकार देना जारी रखेगा और आगामी दिनों में तेल की कीमतों को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में दोनों तरफ की हलचल जारी रह सकती है जहां समर्थन के पास खरीदारी और रेजिस्टेंस के पास बिकवाली की सलाह दी जाती है। नेचुरल गैस की कीमतें 8.2% बढ़कर 2.533 डॉलर/एमएमबीटीयू पर बंद हुईं, जो 18 मई के बाद से एक दिन में सबसे अधिक बढ़त है, और 19 मई के बाद से उच्चतम बंद मूल्य है। एनओए के 8 से 14-दिन के तापमान आउटलुक के अनुसार, औसत से अधिक तापमान की उम्मीद है। अमेरिका के अधिकांश मध्य-पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों में संभवतः जून के उत्तरार्ध में बिजली उत्पादन की मांग को मदद मिलने की संभावना है। इस सप्ताह में कीमतों में वृद्धि जारी रह सकती है और कीमतें 190-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ कारोबार हो सकता है क्योंकि इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि मई में नए घरों की कीमतों में धीमी गति से वृद्धि और दो दशकों से अधिक समय में संपत्ति निवेश में सबसे तेज गति से गिरावट के बाद चीन महामारी के बाद अपनी अस्थिर रिकवरी को मजबूत करने के लिए अधिक उपायों का खुलासा करेगा। मई में खुदरा बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से भी निवेशकों के सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला क्योंकि उपभोक्ताओं ने मोटर वाहनों और निर्माण सामग्री की खरीद में बढ़ोतरी की, जो निकट अवधि में मंदी को दूर करने में मदद कर सकता है। तांबे की कीमतें 718-750 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चीन में तांबे का बाजार दबाव में है क्योंकि हाजिर बाजार में आपूर्ति में कमी के बावजूद वास्तविक खपत कमजोर है और कारोबारियों को इस महीने के अंत में जल्द से जल्द कांगो से शिपमेंट के आवक के साथ आपूर्ति में वृद्धि देखने की उम्मीद है। जिंक की कीमतें 217-232 के दायरे में कारोबार कर सकती है। स्वीडिश खनन कंपनी बोलिडेन ने कहा है कि वह 'अस्थिर वित्तीय नुकसान' के कारण अगले महीने के भीतर आयरलैंड में यूरोप की सबसे बड़ी जिंक खदान में उत्पादन बंद कर देगा। एसएंडपी ग्लोबल ने 2023 में वैश्विक रिफाइनड जिंक की मांग में 1.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया की है। लेड की कीमतें 180-189 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतें 200-218 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चीन का एल्युमीनियम उत्पादन एक साल पहले की तुलना में मई में 1.1% बढ़कर 3.42 मिलियन टन हो गया। चीन के दक्षिण-पश्चिमी युन्नान प्रांत में एल्युमीनियम स्मेल्टरों को बिजली की आपूर्ति इस महीने के अंत में बढ़ाई जाएगी, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्र में परिचालन फिर से शुरू हो सकेगा। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग वायदा (जुलाई) की कीमतें 45500-48000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

मूंगफली.....“तिलहनों का भारतीय राजा”

मूंगफली प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है और दुनिया के लगभग सौ से अधिक देशों में उपजाई जाती है। भारत में मूंगफली को अजूबा या गरीब आदमी का बादाम भी कहा जाता है। मार्च और अक्टूबर में काटी जाने वाली दो फसल चक्रों के कारण यह साल भर उपलब्ध रहती है। यह हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य और नकदी फसलों में से एक है। सभी पोषक तत्वों का मूल्यवान स्रोत होते हुए भी यह कम कीमत वाली वस्तु है। मूंगफली विशेष रूप से छिलके में प्रोटीन (24-36%) सामग्री के लिए मूल्यवान है। मूंगफली में मीट से ज्यादा और अंडे से करीब 2 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। तिलहनी फसल होने के कारण इसमें 40% से 53% तक तेल होता है।

एनसीडीईएक्स पर फिर से कारोबार

कमोडिटी एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) 20 जून 2023 से मूंगफली के वायदा कॉन्ट्रैक्ट में फिर से कारोबार शुरू कर रहा है, जिसने 2010 के आसपास मूंगफली वायदा में कारोबार बंद कर दिया है। वर्तमान में, जुलाई 2023, अगस्त 2023 और सितंबर 2023 के महीनों में समाप्त होने वाला कॉन्ट्रैक्ट कारोबार के लिए उपलब्ध है।

कॉन्ट्रैक्ट स्पेशिफिकेशन	
कमोडिटी	मूंगफली
टिकर प्रतीक	GROUNDNUT
टिक साइज	1 रू
ट्रेडिंग यूनिट	5 एमटी
डिलीवरी यूनिट	5 एमटी
कोटेशन/आधार मूल्य	रू प्रति क्विंटल
क्वांटिटी भिन्नता	+/- 3 %
अधिकतम ऑर्डर	500 एमटी
डिलीवरी लॉजिक	अनिवार्य डिलीवरी
डिलीवरी केन्द्र	बीकानेर
अतिरिक्त डिलीवरी केन्द्र	गोंदल
पोजिशन लिमिट	व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए: 25000 टन सभी ग्राहकों के लिए सामूहिक रूप से सदस्य के लिए: 2,50,000 टन या बाजार के व्यापक ओपेन पोजिशन का 15%, जो भी अधिक हो। नजदीकी माह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए: 6250 टन सभी ग्राहकों के लिए सामूहिक रूप से सदस्य के लिए: 62500 टन या बाजार के व्यापक ओपेन पोजिशन का एम चौथाई, जो भी अधिक हो।

मूंगफली एक निर्यात योग्य वस्तु है, इसलिए जो निर्यातक इसका निर्यात कर रहे हैं, इसलिए वे इस वायदा कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग अपनी कीमत की रक्षा के लिए भी करेंगे और हेजिंग करके भी वे निर्यात मूल्य का हेज कर सकते हैं।


वैश्विक परिदृश्य

मूंगफली की खेती लगभग 115 देशों में की जाती है, जिसका वैश्विक वार्षिक उत्पादन 31.09 मिलियन टन है। वैश्विक उत्पादन का लगभग 58% एशिया से आता है। चीन और भारत शीर्ष दो उत्पादक देश हैं और वैश्विक स्तर पर मूंगफली के कुल उत्पादन में क्रमशः 35.4% और 15.4% का योगदान करते हैं। नाइजीरिया (9.0%) और यूएसए (6%) अगले दो प्रमुख उत्पादक हैं।

भारतीय परिदृश्य

देश में मूंगफली का उत्पादन क्षेत्र कुल तिलहन क्षेत्र का लगभग 45% और उत्पादन कुल तिलहन उत्पादन का 25% है। 100 मिलियन टन से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार, गुजरात में लगभग 30 लाख टन मूंगफली का उत्पादन होने की संभावना है। लेकिन स्थानीय व्यापारियों, दलालों और तेल मिलों को 25 लाख टन से 28 लाख टन उत्पादन के बीच मूंगफली का उत्पादन की उम्मीद है। भारत के कुल मूंगफली उत्पादन में लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान आता है।

दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में 2022-23 के दौरान मूंगफली का उत्पादन लगभग 100.56 लाख टन होने का अनुमान है।



स्रोत: पीआईबी

*2022-23 का तीसरा अग्रिम अनुमान



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्क्रोरीटिज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।